



# SMT ENGINEERING LIMITED

(Formerly known as Adarsh Mercantile Limited)  
Corporate Identity Number (CIN): L33120MP1992PLC080093

compliance@saimachinetools.com  
www.smtel.in +91 9109197950

Reg. Off : Plot No. 23d 'Sector A' Sanwer Road Industrial Area,  
Near Parle G Biscuit Factory, Indore 452015 (M.P.) India.

Date: 11<sup>th</sup> December, 2025

To,  
The Chief General Manager  
Listing Operation,  
BSE Limited,  
20th Floor, P. J. Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai – 400 001.

Unit: SMT Engineering Ltd (Scrip code: 538563)

**Subject: - Submission of Newspaper Publication for the Extraordinary General Meeting of the Company**

Dear Sir/Madam,

With reference to the captioned subject and pursuant to the provisions of Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and applicable circulars of Ministry of Corporate Affairs General, copy of the Newspaper Advertisements published in the Financial Express (English Newspaper) & Hamara Swaraj (Hindi Newspaper) for the intimation of the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on Tuesday, 06th January, 2026 at 12.30 p.m. (IST) are enclosed for your reference.

Kindly arrange to take the same on your records.

**For SMT Engineering Limited**  
**(Formerly known as Adarsh Mercantile Limited)**

**Ajay Jaiswal**  
**Managing Director**  
**DIN: 01754887**



# Indian legal AI targets global reach as adoption deepens

JYOTSNA BHATNAGAR  
Ahmedabad, December 10

INDIAN LEGAL AI firms are entering a new phase of global recognition.

Last week, in a defining moment for the sector, home-grown legal technology company CaseMine joined a group of 141 international AI leaders to have crossed OpenAI's 10-billion token usage milestone — equivalent to processing more than 12 million pages of legal text.

The achievement highlights how deeply domestic legal-AI tools are being used within India's legal system. The milestone comes amid rapid expansion of legal tech, with rising investments and experimentation in AI models built for Indian legal requirements.

According to Tracxn, India now hosts 954 legal-tech companies, including 87 funded ventures that have collectively raised around \$800 million so far.

## What do legal experts say

Legal experts say AI tools are increasingly relevant to India's legal context, with local firms building products closely aligned with Indian jurisprudence. They note a surge in legal-tech startups — particularly AI-focused ones — and rising adoption within law firms.

Professor Ashish Bharadwaj, founding dean, BITS Law School, points to India's structural constraints as a major catalyst for innovation.

"Indian AI legal-tech companies are successfully using generative AI, deep learning and natural language programming based solutions to challenges that are unique to India. These include huge case backlogs, abysmally low number of judges and an estimated pendency of 5.5 years for a high court case. English being

## TECH TRANSFORMATION

- Home-grown firm CaseMine reached OpenAI milestone, processing 12 million legal pages
- India hosts 954 legal-tech firms, including 87 funded ventures that have collectively raised around \$800 mn so far



English, being the official language for Supreme Court, enables legal AI firms to scale up global reach

■ Affordability differentiates domestic platforms from costly foreign legal AI providers

■ Jurisprudence offers real-time support, pilots across 300+ organisations worldwide

the official language for the Supreme Court, 25 High Courts and authoritative legislative texts enables Indian tech companies to scale globally," he says.

## What do lawyers say

A key differentiator is affordability. "Because Indian legal-AI firms are typically developed in India and tuned to Indian law, they may offer cost efficiencies and legal-system alignment that foreign players can struggle with, especially if foreign tools are oriented towards the US, the UK or European jurisdictions," a top lawyer said.

He notes that Indian offerings are often economical. For example, top foreign providers can reportedly charge up to ₹1.4 crore for 100 annual subscriptions, while Manupatra, among the most widely used domestic platforms, offers annual access at about ₹18,000.

Domestic firms are placing

strong emphasis on hands-on adoption support. Shreshth Singh Tomar, founding member of Jurisprudence, which works with firms such as Veritas and CMS Indus Law, says: "Customers are directly being handheld and trained by us. Usage of our platform is reducing litigation and even in-house AI teams of top-listed companies have adopted Jurisprudence."

He adds that several firms have migrated from Western tools to Jurisprudence, with pilots running across more than 300 organisations globally. Tomar believes Jurisprudence holds a majority market share in its segment, driven by affordability, customisation and real-time support.

"We are going global in a big way... currently working across nine jurisdictions already by going really deep into output and real time testing. We are proud to be a Made in India solution built by lawyers for lawyers."

Another high-growth startup, Lucio, serves more than 200 clients across 11 jurisdictions and positions itself as a competitor to global leaders. Co-founder Vasu Aggarwal says: "We are not competing directly with Indian AI players. As a leading legal AI company, our competition is the major global players, Harvey and Legora... Our advantage lies in staying close to users, solving real problems and encouraging rapid adoption."

## A mix of global and domestic tools

Top-tier law firms are adopting a multi-tool strategy. Trilegal uses Lucio alongside other legal-specific solutions. Nikhil Narendran, partner (TMT), says: "The kind of sector specific service level AI talent available in India is as good as anywhere in the world... tools are tailor made to our requirements apart from the very obvious cost advantage."

At Lex Consult, founding partner Majid Afsar Siddiqi underscores the strength of India's ecosystem:

"The fact that legal tech tools are not expensive in India is leading to a burgeoning number of legal tech firms... While Harvey is a brand Big Law can brag about, its customisation still needs to be tested given it works on a global template."

Still, global platforms remain attractive to some. Shardul Amarchand Mangaldas has reportedly deployed Harvey across the firm. Partner Naval Chopra, who led the evaluation, says: "Our selection of Harvey is not a comment on Indian AI talent, which is very good, but on Harvey's suitability for SAM. It has been tested globally across top law firms and has the architecture we need for accuracy, privacy and integration."

PIETER ELBERS, CEO, INDIGO

# When a commander lost control

OVER THE LAST THREE YEARS, PIETER ELBERS HAS STEERED INDIGO'S MARKET SHARE DOMINANCE IN THE INDIAN AVIATION INDUSTRY

YARUQHULLAH KHAN

JUST WEEKS BEFORE the IndiGo crisis erupted, Pieter Elbers, during the post Q2 FY26 earnings call on November 4, painted a picture of operational excellence. He boasted about leading the industry in on-time performance for nine consecutive months, praised the airline's "meticulous planning" and "relentless focus on execution," and announced plans for early teens capacity growth.

The 55-year-old Dutch obviously spoke too soon, as there is now much uncertainty about whether he will be able to retain his seat as IndiGo's chief executive officer. The carrier's delay in preparing for the new flight duty rules throwing air travel in utter chaos over the past week seems to have undone much of his good work. During one of the biggest aviation crises in years, the airline chose to attribute the disruption to external factors over taking accountability and being transparent.

To be fair, Elbers, who joined IndiGo in September 2022 after more than three decades at KLM, has done a lot. His contribution to IndiGo's growth cannot be overlooked. Over the last three years, Elbers has steered IndiGo's market share dominance in the Indian aviation industry even as the Tata Group threw a strong challenge with expanded premium and full-service offerings. During his tenure, the airline increased its market share from 57% to 66% (as of October 2025) while its passenger traffic grew around 55% — from 69 million passengers carried in 2022 to

being on pace to 110 million passengers in 2025.

He also spearheaded IndiGo's expansion into international long-haul markets with temporary leasing agreements, including those with Turkish Airlines and Norse Atlantic Airways.

Then turbulence hit in December 2025. Shakti Lumba, who was IndiGo's head of operations when it first began operating in 2006, alleged in an open letter last week that IndiGo was harbouring a "toxic culture," and that the airline's management fostered fear, overwork and arrogance long before the December 2025 crisis.

Born in 1970 in Schiedam, Netherlands, Elbers studied Logistics Management at Fontys University of Applied Sciences and later earned a Master's degree in Business Economics. In 1992, he started his aviation career as a supervisor for aircraft loading at KLM's Schiphol hub in Amsterdam. In a span of 22 years, he entered the corner

office of KLM.

During his time as KLM's CEO, the airline hit record passenger numbers in 2019, serving more than 35 million travellers through KLM and its subsidiary Transavia. Operational performance improved, with customer satisfaction ratings and operating margins rising from 2% to 10%.

However, in 2020, the Covid-19 pandemic brought significant challenges, leading to a sharp decline in demand and requiring government support for survival. Starting late 2021, Elbers focused on recovery efforts, and by early 2022, KLM reported profitability for three consecutive quarters. After eight years at the helm of KLM, Elbers announced he would not seek a third term.

At Indigo, Elbers has focused on what he calls "evolution, not revolution". He has streamlined management structures, enhanced efficiency across the airline's broad operations, and pushed for digital transformation.

His management style stood out for his focus on maintaining operational discipline and cost awareness. Rather than just managing from an office, he made it a point to understand operational bottlenecks firsthand, senior executives from IndiGo told FE.

A senior official told FE that in January 2024, when IndiGo was clocking its worst on-time performance as dense fog restricted visibility and delayed flights, Elbers visited almost every airport IndiGo operated from "to directly assess infrastructure and identify ground-level issues".

However, during his tenure at IndiGo, the airline made headlines for some wrong reasons as well. In August 2023, a 40-year-old pilot of IndiGo passed away from a cardiac arrest at the Nagpur airport just before he was to operate a flight to Pune. In January 2024, the DGCA and Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) slapped a fine of ₹1.2 crore on IndiGo for five offences, including an incident in which passengers of its delayed flight were seen eating on the tarmac.

While Elbers' track record at KLM highlights great expertise in managing complex global networks and navigating both growth and crisis periods with aplomb, his tenure at IndiGo has certainly got a rude jolt. In a LinkedIn post last year, Elbers wrote in Hindi "Bharat ab ghar jaisa lagta hai" (India feels like home). It will surely be some time before he starts feeling at home again.



SHYAM KR PRASAD

**भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड**  
**CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.**  
(भारत सरकार का नगरल एंटरप्राइज) (A Navratna Undertaking of Govt. of India)

**NOTICE INVITING E-TENDER**  
CONCOR invites E-Tender for the following work:-  
Tender No. 1. CON/IE/AREA-I/P/WAY/E-88790/2026-28 (Single Packet System)  
2. CON/IA/AREA-I/TECH/AMC/LING TRUCKS/2025 (Two Packet System)  
Name of Work 1. Renewal of the existing BG track and Annual preventive Maintenance of CONCOR Siding at different terminals of Area-1 (i.e. TKD Moradabad, Jaipur, Khatwas, Ludhiana, Dhappar, Phillaur, Khemli, Barhi, Dadri, Kanpur, Agra, Kota and Malanpur)  
2. Maintenance contract for 129 LNG Trucks deployed at different terminals of Container Corporation of India Ltd (CONCOR)  
Estimated Cost 1. Rs. 4,82,08,035/- 2. Rs. 6.31 Crore (including all taxes)  
Completion Period 1. 24 Months from the 15th day after date of issue of L.O.A.  
Earnest Money Deposit 1. Rs. 3,91,041/- (through e-payment) 2. Rs. 5,00,000/- (through online payment gateway to CONCOR)  
Cost of Tender Document 1. NIL 2. Rs. 1,000 through online payment gateway to CONCOR.  
Tender Processing Fee (Non-refundable) 1. Rs. 3540/- (inclusive of Taxes) through online payment.  
2. Rs. 3540/- (inclusive of Taxes) through online payment.  
Date of sale of Tender (online) 1. 11.12.2025 (11:00hrs) to 30.12.2025 (upto 17:00 hrs)  
2. 11.12.2025 at 15:00 Hrs to 31.12.2025 (upto 17:00 Hrs)  
Date & Time of submission of Tender. 1. 31.12.2025 upto 17:00 hrs. 2. 02.01.2026 upto 17:00 Hrs  
Date & Time of Opening of Tender. 1. 02.01.2026 at 11:30 hrs. 2. 03.01.2026 at 11:00 Hrs  
For financial eligibility criteria, experience with respect to similar nature of work, etc, please refer to detailed tender notice available on website [www.concorindia.co.in](http://www.concorindia.co.in), but the complete tender document can be downloaded from website [www.tenderwizard.com/CCL](http://www.tenderwizard.com/CCL) only. Further, Consignment Addendum to this Tender, if any, will be published on website [www.concorindia.co.in](http://www.concorindia.co.in), [www.tenderwizard.com/CCL](http://www.tenderwizard.com/CCL) and Central Procurement Portal (CPP) only. Newspaper press advertisement shall not be issued for the same.  
Group General Manager (Technical/P&S)/Area-I

**NALWA SONS INVESTMENTS LIMITED**  
CIN: L65990DL1970PLC146414  
Regd. Office: 28 Najafgarh Road, Moti Nagar Industrial Area, New Delhi - 110 015  
Ph. No.: (011) 45021854, 45021812. Email: [investorcare@nalwasons.com](mailto:investorcare@nalwasons.com). Website: [www.nalwasons.com](http://www.nalwasons.com)  
Branch Office: O.P. Indli Marg, Hisar-125005, Haryana. Phone No: (01662) 22471-83

**POSTAL BALLOT NOTICE**  
The members of Nalwa Sons Investments Limited ("the Company") are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR") read with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 3/2020 dated September 26, 2020, 38/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022, 09/2023 dated September 25, 2023, 09/2024 dated September 19, 2024 and 03/2025 dated September 22, 2025 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), the Company has completed the dispatch of Postal Ballot Notice along with explanatory statement ("Notice") on December 10, 2025 for seeking their consent in relation to the special business(es) as set out in the Postal Ballot Notice dated December 9, 2025.  
In terms of the MCA Circulars, the Postal Ballot Notice has been sent on December 10, 2025 only by email to the Members / beneficiaries whose email addresses are registered with the Company's Depository participants and whose name appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on Friday, December 5, 2025 ("Cut-off date").  
Members holding equity shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. December 5, 2025, may cast their vote electronically on the special businesses as set out in the Postal Ballot Notice through remote e-voting facility of MUFG Intime India Private Limited (Formerly known as Link Intime India Private Limited) ("MUFG Intime"). All members are informed that:  
I. The Special Business(es) as set out in the Postal Ballot Notice may be transacted through voting by electronic means.  
II. The remote e-voting shall commence on December 11, 2025 at 9:00 A.M. (IST).  
III. The remote e-voting shall end on January 09, 2026 at 5:00 P.M. (IST).  
IV. The remote e-voting facility will be disabled by MUFG Intime after the aforesaid date and time. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.  
V. The cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting is December 5, 2025.  
VI. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories, as on the cut-off date i.e. December 5, 2025 only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.  
VII. The Members holding shares in physical form, whose email id is not registered with the Company and who wish to receive the Notice and all other communication sent by the Company, from time to time, through email can now register for the same by submitting a request letter mentioning their folio number, complete address, email address to be registered along with scanned self-attested copy of the PAN Card and any document (such as Driving License, Passport, Bank Statement, Aadhaar Card) supporting the registered address of the Member, by email to the Company's Registrar & Share Transfer Agent, Members holding shares in demat form are requested to register their email addresses with their Depository Participant(s) only.  
VIII. A person who is already registered with MUFG Intime for e-voting then existing User ID and password can be used to cast the vote. In case of any queries or grievance pertaining to E-voting, the members may refer to the help section at <https://instavote.linkintime.co.in> or contact Mr. Swapnil Kumar Naskar, Associate Vice President & Head (North India), MUFG Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH-2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058, contact No. (011) 49411000 (Email [swapanm@in.mpmis.mufg.com](mailto:swapanm@in.mpmis.mufg.com)) or contact the Company.  
IX. Notice is also available on the Company's website [www.nalwasons.com](http://www.nalwasons.com), MUFG Intime's website <https://instavote.linkintime.co.in>, and website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).  
X. Mr. Rajesh Gang of M/s. Rajesh Gang & Co., Practicing Company Secretary, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.  
XI. In order to facilitate ease of investing for investors and to secure the rights of investors in the securities which were purchased by them, SEBI vide its circular dated July 02, 2025 has decided to open a special window only for re-logging of transfer deeds, which were lodged prior to the deadline of April 01, 2019 and rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process or otherwise, for a period of six months from July 07, 2025 till January 06, 2026. The eligible shareholders may submit their transfer requests along with the requisite documents to MUFG Intime.  
The result of Postal Ballot will be declared on or before January 13, 2026 at Registered Office of the Company. The results of the Postal Ballot along with the scrutinizer report shall be placed on the Company's website [www.nalwasons.com](http://www.nalwasons.com), MUFG Intime's website <https://instavote.linkintime.co.in> and website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

**For Nalwa Sons Investments Limited**  
(Ajay Mittal)  
Date: December 10, 2025  
Company Secretary

**SINGHAL BROTHERS PRIVATE LIMITED**  
Registered Address : 6, Waterloo Street, Room No 502, 5th Floor, Esplanade, Kolkata, Kolkata, West Bengal-700069, India.  
**NOTICE**  
This notice is in continuation to our previous attempts to communicate with you regarding the Annual General Meetings of Singhal Brothers Private Limited (the "Company"). Despite our best efforts, we have been unable to reach you as the notices sent to your registered address have been returned as "untraceable".  
We request you to kindly come forward and contact us at the Company correspondence address to update your contact details and confirm your shareholding.  
Please note that this is a notice issued in accordance with the Companies Act, 2013, and the rules made thereunder.  
Thank you for your cooperation.  
For Singhal Brothers Private Limited  
Sd/-  
Sameer Singhal  
Director  
Date : 11.12.2025  
Place : Kolkata  
DIN : 00623051

**"IMPORTANT"**  
Whilst care is taken prior to acceptance of an advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damages incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers, or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

**Gujarat Mineral Development Corporation Ltd.**  
(A Government of Gujarat Enterprise)  
GMDC, one of India's leading mining PSUs, invites EoIs from qualified EPC partners to engineer, procure, construct and commission full scale Beneficiation and Concentration plants for its REE programme.  
EoI No. **GMDC/KEP/02/25-26**  
EoI document available for download from **11/12/2025**  
To Download EoI Document Visit: [www.gmdcltd.com](http://www.gmdcltd.com)  
Due Date for Submission **12/02/2026 up to 17:00 hrs IST**  
GMDC Ltd, 'Khanji Bhavan', 132 Feet Ring Road, Vastrapur, Ahmedabad - 380 052, Gujarat, India

**GMDC**  
Gujarat Mineral Development Corporation Ltd.  
(A Government of Gujarat Enterprise)  
[www.gmdcltd.com](http://www.gmdcltd.com)

**SMT ENGINEERING LIMITED**  
(Formerly known as Adarsh Mercantile Limited)  
CIN: L33120MP1992PLC080093  
Regd. Office: Plot No. 23 D Sector A Sanwer Road Industrial Area, Near Parle G Biscuit Factory, Indore 452015 Madhya Pradesh, India.  
Email ID: [compliance@saimechintools.com](mailto:compliance@saimechintools.com) | Website: [www.smtel.in](http://www.smtel.in) | Contact Details +91 9109197950

**INFORMATION REGARDING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VC /OAVM**  
Notice is hereby given that the (01/2025-26) Extraordinary General Meeting ("EGM") of the Company will be held on Tuesday, 06th January, 2026 at 12:30 P.M. through electronic mode (video conference ("VC") or other audio-visual means ("OAVM")), without the physical presence of the members at a common venue, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules issued thereunder and General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 03/2022, 10/2022, 09/2023 and 09/2024 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/167 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2024/133 issued by Securities and Exchange Board of India (hereinafter collectively referred to as "Circulars"), to transact the business that will be set forth in the Notice of EGM (the "Notice").  
In compliance with the above Circulars, the electronic copies of the Notice will be sent to all the Members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participants ("DPs") as on BENPOS date i.e. Friday, 05th December, 2025. The same will also be available on the website of the Company at [www.smtel.in](http://www.smtel.in), Stock Exchange i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).  
For the limited purpose of receiving Notice through electronic mode in case the email address is not registered with the DPs/ Company/RTA, Members may register the email id using the facility provided by the Company, as follows:  
1. For Members holding shares in dematerialized mode, kindly register/update your email address with your Depository Participants. Alternatively, you may register your email address with Niche Technologies Private Limited our Registrar and Transfer Agent ("RTA") by visiting at [www.nichetechpl.com](http://www.nichetechpl.com) on a temporary basis to ensure the receipt of the Notice.  
2. For Members holding shares in physical mode, you may register your email address with the RTA by visiting at [www.nichetechpl.com](http://www.nichetechpl.com) on a temporary basis to ensure the receipt of the Notice.  
Members can join and participate in the EGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the EGM would be provided in the Notice of the EGM. Members participating through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.  
The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its members' to cast their votes on all resolutions as may be set forth in the Notice. Members have the option to cast their votes on any of the resolutions using the remote e-voting facility or e-voting during the EGM. Detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the EGM will be provided in the Notice of EGM.  
The login credentials for casting the votes through e-Voting shall be made available to the members through various modes as may be provided in the Notice of EGM as well as through e-mail after successfully registering the email address(es).  
The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the Circulars.  
The Members may contact the Company's RTA at:  
Niche Technologies Private Limited  
3A, Auckland Place, 7th Floor, Room No- 7A & 7B, Kolkata - 700 017  
Email: [nichetechpl@nichetechpl.com](mailto:nichetechpl@nichetechpl.com) Contact: +91 98306 59635  
By order of the Board  
SMT Engineering Limited  
Sd/-  
Mohd Shanawaz Sheikh  
(Company Secretary & Compliance Officer)  
Date: 10.12.2025  
Place: Indore

**EASTMAN AUTO AND POWER LIMITED**  
Registered Office: Flat No. 101, 1st Floor, Naraina Industrial Area, Phase -I, New Delhi, South West Delhi - 110 028, Delhi, India  
Corporate office: 4th Floor, Quattro Tower A, Plot No. 249-E, Udyog Vihar Phase IV, Industrial Complex Dundaheira, Gurgaon - 122 016, Haryana, India  
Contact Person: Rahul Nitin Sinnarkar, Company Secretary and Compliance Officer  
Tel.: +91 124 468 2650, Website: [www.eapworld.com](http://www.eapworld.com), Email: [corp.compliance@eapworld.com](mailto:corp.compliance@eapworld.com)  
This public announcement is being made pursuant to Regulation 59C(5) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that the Company has filed the Pre-filed Draft Red Herring Prospectus with SEBI and the Stock Exchanges, under Chapter IIA of the SEBI ICDR Regulations in relation to the Offer. The filing of the Pre-filed Draft Red Herring Prospectus shall not necessarily mean that the Company will undertake the Offer.  
This public announcement is not an offer of securities for sale in the United States or elsewhere. This announcement has been prepared for publication in India only and is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 ("U.S. Securities Act"), as amended or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (a) in the United States only to persons reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act) pursuant to the private placement exemption set out in Section 4(a) of the U.S. Securities Act and (b) outside the United States in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur.  
For and on behalf of the Board of Directors of  
EASTMAN AUTO AND POWER LIMITED  
Sd/-  
Rahul Nitin Sinnarkar  
Company Secretary and Compliance Officer  
Place: New Delhi  
Date: December 10, 2025

**Eastman**  
Registered Office: Flat No. 101, 1st Floor, Naraina Industrial Area, Phase -I, New Delhi, South West Delhi - 110 028, Delhi, India  
Corporate office: 4th Floor, Quattro Tower A, Plot No. 249-E, Udyog Vihar Phase IV, Industrial Complex Dundaheira, Gurgaon - 122 016, Haryana, India  
Contact Person: Rahul Nitin Sinnarkar, Company Secretary and Compliance Officer  
Tel.: +91 124 468 2650, Website: [www.eapworld.com](http://www.eapworld.com), Email: [corp.compliance@eapworld.com](mailto:corp.compliance@eapworld.com)  
This public announcement is being made pursuant to Regulation 59C(5) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that the Company has filed the Pre-filed Draft Red Herring Prospectus with SEBI and the Stock Exchanges, under Chapter IIA of the SEBI ICDR Regulations in relation to the Offer. The filing of the Pre-filed Draft Red Herring Prospectus shall not necessarily mean that the Company will undertake the Offer.  
This public announcement is not an offer of securities for sale in the United States or elsewhere. This announcement has been prepared for publication in India only and is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 ("U.S. Securities Act"), as amended or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (a) in the United States only to persons reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act) pursuant to the private placement exemption set out in Section 4(a) of the U.S. Securities Act and (b) outside the United States in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur.  
For and on behalf of the Board of Directors of  
EASTMAN AUTO AND POWER LIMITED  
Sd/-  
Rahul Nitin Sinnarkar  
Company Secretary and Compliance Officer  
Place: New Delhi  
Date: December 10, 2025

epaper.financialexpress.com

New Delhi



## ब्रीफ न्यूज़

## दो बांग्लादेशी भाइयों की करतूत, भोपाल में वोटर-आधार कार्ड और पासपोर्ट बनवाए

**भोपाल।** राजधानी भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र में करीब दस वर्ष पहले ग्यारह महीने के लिए किराए का मकान लेने वाले दो बांग्लादेशी भाइयों ने फर्जी दस्तावेज देकर यहां से वोटर कार्ड बनवाए। इसके बाद आधार कार्ड और पासपोर्ट भी बनवा लिए। कुछ माह पहले अवैध बांग्लादेशियों की जब देशभर में तलाश शुरू हुई, इसके बाद केन्द्रीय जांच एजेंसियों के इनपुट के आधार पर भोपाल पुलिस को पता चला। इसके बाद भोपाल पुलिस ने जांच के बाद दोनों बांग्लादेशियों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि दोनों बांग्लादेशी वर्तमान में कहाँ हैं, इसका पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को पता नहीं है। पासपोर्ट बनवाए जाने के लिए हुए पुलिस वेरिफिकेशन पर भी सवाल उठने लगे हैं। पुलिस की जांच में वेरीफिकेशन करने वाले तत्कालीन पुलिस कर्मचारियों से भी जवाब-तलब किया जाएगा। कोलार थाना पुलिस के अनुसार बांग्लादेशी नागरिक मो. रिहान अंसारी पिता सफकूल हक अंसारी और मो. मकबूल अंसारी पिता सफकूल हक अंसारी ने अगस्त 2014 में राजवैद्य कॉलोनी, कोलार रोड में लक्ष्मी ठाकुर का मकान ग्यारह माह के लिए किराए पर लेने का अनुबंध लगाकर वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनवाया। इसके बाद इसी मकान का पता देते हुए पासपोर्ट भी बनवा लिया। कुछ सप्ताह पहले इटैलीजेंस ने पासपोर्ट के आधार पर दिए गए पते पर दोनों की जांच के निर्देश दिए थे। जांच में खुलासा हुआ कि वह दोनों बांग्लादेशी कभी उक्त मकान में किराए पर रहे ही नहीं। दोनों आरोपियों ने फर्जी तरीके से मकान का अनुबंध पत्र तैयार कराकर दस्तावेज बनवाए और पासपोर्ट तक बनवा लिया। हालांकि पुलिस मकान मालिक के उन बयानों को भी तस्दीक कर रही हैं कि आरोपी उनके मकान में रहते थे या नहीं। इसके साथ यह भी तस्दीक की जा रही है कि जिस नोटरी की सील और हस्ताक्षर किए थे, वह भी फर्जी हैं या नहीं। जांच में अधिकांश दस्तावेज फर्जी पाए जाने के बाद धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है।

## नवाचार से कार्यकर्ताओं को लाभ, अब समस्याओं का समाधान प्रदेश कार्यलय में राव उदय प्रताप

**भोपाल।** मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने भाजपा संगठन द्वारा कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद की नई व्यवस्था को सराहते हुए कहा कि इस अभिनव पहल के लिए वे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल का आभार व्यक्त करते हैं। मंत्री ने बताया कि यह नई व्यवस्था सोमवार से शुरूवार तक मंत्रियों को प्रतिदिन कार्यकर्ताओं और आम जनता से सीधा जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को मंत्रियों के बंगले या वल्लभ भवन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समस्याओं का समाधान सीधे भाजपा प्रदेश कार्यालय में ही किया जा रहा है। आज प्रदेश कार्यालय में उन्होंने अनेक कार्यकर्ताओं व वरिष्ठजनों से संवाद कर उनकी समस्याएँ सुनीं और समाधान के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। आज भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मिल रहे राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि कार्यकर्ताओं से मिलते समय सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं पर मूल्यवान फीडबैक प्राप्त हुआ, जो योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं बल्कि आम जनता के लिए भी बड़ी सुविधा प्रदान करने वाली है, जिससे समय, ऊर्जा और संसाधनों की बचत हो रही है। मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में यह पहल सरकार, संगठन और जनता के बीच एक मजबूत और लाभकारी सेतु का कार्य करेगी।

## मेल में 35 नव पदोन्नत अधिकारियों को मिला प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र



**भोपाल।** बीएचईएल भोपाल में नव पदोन्नत सहायक अभियंताओं और सहायक अधिकारियों के लिए आयोजित छह दिवसीय होराइजन कार्यक्रम-क्रक का समापन एक औपचारिक समारोह के साथ हुआ। इस समापन सत्र की अध्यक्षता महाप्रबंधक (मानव संसाधन) टी.यू. सिंह ने की। जून 2025 में आयोजित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पदोन्नत अधिकारियों में व्यावसायिक अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और कार्यकुशलता को सुदृढ़ करने पर केंद्रित था। अपर महाप्रबंधक (एचआरडी) सुरेखा बंजोर भी इस अवसर पर उपस्थित रहीं। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए सिंह ने अनुशासन को प्रभावी पेशेवर आचरण की आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि अनुशासित कार्य शैली न केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन को बेहतर बनाती है, बल्कि पूरी टीम में जवाबदेही और प्रतिबद्धता को भी बढ़ावा देती है। उन्होंने क्वालिटी, करस्थान और सेप्टी के मामलों में शून्य सहिष्णुता अपनाने पर विशेष जोर दिया और इसे किसी भी जिम्मेदार इंजीनियरिंग संगठन के लिए अनिवार्य मानक बताया। सिंह ने यह भी कहा कि प्रशिक्षण का वास्तविक लाभ तभी है जब प्रतिभागी अपने कार्यक्षेत्र में सीख को व्यवहार में बदलते हुए ठोस सुधार लाएं। कार्यक्रम के अंत में सभी 35 प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। सत्र का संचालन प्रबंधक (एचआरडी) कीर्ति सिंह ने किया और उन्होंने ही आभार व्यक्त किया।

## रेटिना का वायरल संक्रमण पहचानने में देरी से जा सकती है रोशनी

## हमारा स्वराज

**भोपाल।** रेटिना में होने वाला वायरल संक्रमण (वायरल रेटिनाइटिस) आंखों के सबसे खतरनाक रोगों में से एक है। इसका निदान जटिल होता है और इलाज में थोड़ी भी देरी होने पर मरीज की दृष्टि स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती है। यह चेतावनी एम्स भोपाल के नेत्र रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर एवं चीफ रेटिना सर्जन डॉ. समेंद्र कारखुर ने इटली में आयोजित प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 'फ्लोरेटिना आईकूर 2025' में दी। डॉ. कारखुर इस सम्मेलन में गेस्ट फैकल्टी स्पीकर के रूप में आमंत्रित किए गए थे। 13वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस में दुनिया भर से 1600 से ज्यादा नेत्र विशेषज्ञ और रेटिना सर्जन शामिल हुए। मंच से अपने व्याख्यान में उन्होंने रेटिना के वायरल संक्रमण से जुड़ी जटिलताओं, गलत उपचार के दुष्परिणामों और सटीक इलाज की रणनीतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। डॉ. कारखुर ने बताया कि वायरल रेटिनाइटिस का खतरा खासतौर पर उन मरीजों में अधिक रहता है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। इसमें ब्लड कैन्सर से पीड़ित, कीमोथेरेपी ले रहे मरीज, एचआईवी पॉजिटिव, अत्यधिक वृद्ध व्यक्ति और कमजोर इम्युनिटी वाले लोग शामिल हैं।



## संजय पाठक पर आदिवासी भूमि खरीद का मामला

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 5 कलेक्टरों को दिए जांच के आदेश

## हमारा स्वराज

**भोपाल।** भाजपा विधायक संजय पाठक से जुड़ा आदिवासी भूमि खरीद का विवाद गहराता जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने उनके विरुद्ध दर्ज शिकायत को गंभीर मानते हुए मध्यप्रदेश के पांच जिलों कटनी, जबलपुर, उमरिया, डिंडौरी और सिवनी के कलेक्टरों को जांच के आदेश दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी कलेक्टर एक माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, अन्यथा समन जारी कर व्यक्तिगत रूप से तलब किया जाएगा। आयोग ने यह भी चेतावा है कि समय सीमा के भीतर जवाब नहीं मिलने की स्थिति में वह सविधान के अनुच्छेद 338(क) के तहत सिविल कोर्ट जैसी शक्तियों का उपयोग करेगा।



## कलेक्टरों को आयोग ने अंतिम चेतावनी जारी की

शिकायतकर्ता ने बताया कि 15 सितंबर को आयोग को शिकायत सौंपी गई थी। इसके बाद आयोग के निर्देश पर केवल डिंडौरी कलेक्टर ने जांच कर रिपोर्ट भेजी है। जबकि कटनी, जबलपुर, उमरिया और सिवनी के कलेक्टरों से अब तक जानकारी नहीं मिली है। इस पर आयोग ने चारों जिलों को अंतिम चेतावनी जारी कर दी है।

## 795 एकड़ जमीन पर खनन की तैयारी का दावा

शिकायत में यह भी कहा गया है कि कटनी जिले के चार आदिवासी कर्मचारियों के नाम पर डिंडौरी जिले में करीब 795 एकड़ जमीन खरीदी गई है। यह जमीन बजाग तहसील के पिपरिया माल, बघरेली सानी, सरई टोला और हर्रा टोला क्षेत्रों में स्थित है। जमीन खरीद वर्ष 2025 के बाद से होना बताया गया है। शिकायत के अनुसार यह भूमि रघुराज सिंह गौड़, नन्धू कोल, राकेश सिंह गौड़ और प्रहलाद कोल के नाम दर्ज है तथा यहां बाक्सइट खनन की तैयारी की जा रही है। उन्होंने सभी संबंधित खातों की वित्तीय जांच की भी मांग की है।

## विधायक अलावा ने सीएम सचिवालय को दी शिकायत

इस प्रकरण में कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को लिखित शिकायत दी है। उनके पत्र के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। इसके क्रम में जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त ने डिंडौरी कलेक्टर को पत्र भेजकर उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने को कहा है। अपर आयुक्त द्वारा जारी पत्र में उल्लेख है कि बजाग तहसील के संरक्षित बैगा बहुल क्षेत्र में करीब 1200 एकड़ आदिवासी भूमि के कथित बेनामी सौदों की विस्तृत जांच आवश्यक है।

## भोपाल-दिल्ली रूट के यात्रियों को बड़ी राहत

## 12 घंटे पहले बनेगा शान-ए-भोपाल एक्सप्रेस का रिजर्वेशन चार्ट

**भोपाल।** पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक अहम बदलाव किया है। अब रानी कमलापति-हजरत निजामुद्दीन-रानी कमलापति शान-ए-भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12155/12156) का प्रथम आरक्षण चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से 12 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। यह व्यवस्था 12 दिसंबर 2025 से लागू होगी। रेलवे प्रशासन का मानना है कि इस कदम से यात्रियों को समय रहते अपने कन्फर्म, वेटिंग या आरएसी स्टेटस की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। खासतौर पर दूर-दराज इलाकों से आने वाले यात्रियों को यात्रा की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी और आखिरी समय की



असमंजस व चिंता से राहत मिलेगी। भोपाल मंडल ने इस नई व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। फिलहाल इसे शान-ए-भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में लागू किया जा रहा है। यदि यह प्रयोग सफल रहा, तो भविष्य में इसे अन्य लंबी दूरी की ट्रेनों में भी लागू किया जा सकता है। रेलवे ने

यह भी साफ किया है कि इस ट्रेन के आपातकालीन कोटे के लिए आवेदन कार्यदिवस में एक दिन पूर्व तक स्वीकार किए जाएंगे। इससे यात्रियों को कोटे से जुड़े नियमों में पारदर्शिता मिलेगी।

वरिष्ठ डीसीएम सौरभ कटारिया के अनुसार, यह निर्णय यात्रियों के हित में लिया गया है। 12 घंटे पहले चार्ट

## जगदीशपुर में 'इस्लाम नगर' पर विरोध तेज, बोर्ड पर पोती कालिख

**भोपाल।** भोपाल के जगदीशपुर में नाम परिवर्तन के 22 महीने बाद भी पुराने बोर्ड लगे रहने को लेकर विवाद गहरा गया है। गांव का आधिकारिक नाम बदले जाने के बावजूद कई स्थानों पर अब भी हज़राम नगररु लिखे बोर्ड दिखाई देने से स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बुधवार को एक बार फिर संगठनों ने मौके पर पहुंचकर बोर्डों पर कालिख पोती और नए बैनर लगाकर विरोध दर्ज कराया। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ता सुबह जगदीशपुर पहुंचे।



जहां-जहां 'इस्लाम नगर' लिखा मिला, वहां उसे ढककर 'जगदीशपुर' के बैनर लगाए गए। इस दौरान नारेबाजी भी हुई। प्रदर्शनकारियों का

कहना है कि सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन और नाम परिवर्तन के आदेशों का पालन जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा, जो गंभीर लापरवाही है।

## बच्चों में भी सामने आ रहे मामले

उन्होंने बताया कि यह बीमारी सिर्फ वयस्कों तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों में भी वायरल रेटिनाइटिस के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। शुरुआती लक्षण अक्सर अन्य सामान्य आंखों के रोगों जैसे दिखाई देते हैं, जिससे गलत निदान और गलत इलाज की आशंका बढ़ जाती है।

## स्टेरॉयड से बिगाड़ सकती है स्थिति

डॉ. कारखुर ने विशेष रूप से आगाह किया कि कई मामलों में बिना सही जांच के सिर्फ स्टेरॉयड देने से संक्रमण तेजी से फैल जाता है और बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। वायरल रेटिनाइटिस में स्टेरॉयड का गलत उपयोग स्थिति को 'ओवरड्राइव' में डाल देता है, जिससे आंखों की रोशनी बचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। उन्होंने बताया कि सटीक डायग्नोसिस, तुरंत रेफरल और अनुभवी रेटिना विशेषज्ञ द्वारा इलाज ही मरीज की दृष्टि बचा सकता है। उपचार में बार-बार इंद्रा-ऑक्युलर इंजेक्शन, इंटावीनस थेरेपी और जरूरत पड़ने पर समय पर रेटिना सर्जरी कारगर साबित होती है।

## मप्र में सर्दी का डबल अटैक अगले दो दिन शीतलहर-बर्फोली हवाओं से तापमान और गिरेगा

**भोपाल।** मध्य प्रदेश में ठंड अपने सबसे तीखे तैवर दिखा रही है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए कोल्ड वेव अलर्ट जारी किया है। बुधवार और गुरुवार को भोपाल, इंदौर, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर और सोहो में शीतलहर चलने की चेतावनी है। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाएं और ऊंचाई पर सक्रिय जेट स्ट्रीम के कारण ठंड का असर और गहराने वाला है। भोपाल में रात का न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शहडोल के कल्याणपुर में पारा 4.7 डिग्री तक गिर गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। इंदौर समेत 25 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जेट स्ट्रीम 222 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सक्रिय है। जमीन से करीब 12 किलोमीटर ऊपर बहने वाली यह तेज हवा जब पहाड़ों से उतर रही ठंडी और बफीर्ली हवाओं से मिलती है, तो सर्दी और तीव्र हो जाती है। इसी का असर मध्य प्रदेश में साफ दिखाई दे रहा है। कश्मीर, हिमाचल और



उत्तराखंड में समय से पहले हुई बर्फबारी, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र और पंजाब-हरियाणा-दिल्ली की ठंडी हवाएं तीनों दिशाओं से आ रही हवाएं प्रदेश को ठिठुरा रही हैं। हालात ऐसे हैं कि पचमढ़ी में झीलों और तालाबों से भाप उठती दिखी, वहीं रायसेन में फसलों पर ओस की बूंदें जम गईं।

## इन शहरों में रात सबसे सर्द

**भोपाल:** 7.2 डिग्री  
**इंदौर:** 6.1 डिग्री  
**ग्वालियर:** 9 डिग्री  
**उज्जैन:** 9.5 डिग्री  
**जबलपुर:** 8.5 डिग्री  
राजगढ़, नागांव, उमरिया, रीवा, मलाजखंड, बैतूल, रायसेन, शिवपुरी, मंडला, दतिया, खजुराहो, दमोह, नरसिंहपुर, सतना, छिंदवाड़ा, सीधी और टीकमगढ़ जैसे शहरों में भी पारा 6 से 9.8 डिग्री के बीच दर्ज किया गया।

## सैंपल पेपर दो महीने देरी से मिले, सिलेबस अधूरा

**भोपाल।** मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। बोर्ड परीक्षा 7 फरवरी से शुरू होगी, जिसमें करीब 18 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। हालांकि, अधिकांश स्कूलों में अब तक सिलेबस पूरा नहीं हो सका है। कुछ स्कूलों में 20 प्रतिशत जबकि कुछ में 40 प्रतिशत पाठ्यक्रम बचा हुआ है। इस वजह से विद्यार्थियों में मुख्य परीक्षाओं को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी बीच

इस साल सैंपल पेपर पिछले वर्ष की तुलना में करीब दो महीने देरी से जारी होने से लाखों विद्यार्थी दबाव में हैं। पिछले साल बोर्ड परीक्षा के लिए सैंपल पेपर अक्टूबर महीने में जारी कर दिए गए थे, जबकि इस बार ये दिसंबर के पहले सप्ताह में उपलब्ध कराए गए। इसका असर यह हुआ कि छात्र लंबे समय तक पुराने पैटर्न के आधार पर पढ़ाई करते रहे और अब परीक्षा से ठीक पहले उन्हें तैयारी की दिशा बदलनी पड़ी।

SMT ENGINEERING LIMITED
(Formerly known as Adarsh Mercantile Limited)
CIN: L33120MP1992PLC089093
Regd. Office: Plot No. 23 D Sector A Sanwer Road Industrial Area, Near Parle G Biscuit Factory, Indore 451055 Madhya Pradesh, India.
Email ID: compliance@saimachinetools.com   Website: www.smtel.in   Contact Details +91 9109197950
INFORMATION REGARDING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VC /OAVM
Notice is hereby given that the (01/2025-26) Extraordinary General Meeting ("EGM") of the Company will be held on Tuesday, 06th January, 2026 at 12:30 P.M. through electronic mode (video conference ("VC")) or other audio-visual means ("OAVM"), without the physical presence of the members at a common venue, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules issued thereunder and General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 03/2022, 10/2022, 09/2023 and 09/2024 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/167 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 issued by Securities and Exchange Board of India (hereinafter collectively referred to as "Circulars"), to transact the business that will be set forth in the Notice of EGM (the "Notice").
In compliance with the above Circulars, the electronic copies of the Notice will be sent to all the Members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participants ("DPs") as on BENPOS date i.e. Friday, 05th December, 2025. The same will also be available on the website of the Company at www.smtel.in, Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com.
For the limited purpose of receiving Notice through electronic mode in case the email address is not registered with the DP/s/ Company/RTA, Members may register the email id using the facility provided by the Company, as follows:
1. For Members holding shares in dematerialized mode, kindly register/update your email address with your Depository Participants. Alternatively, you may register your email address with Niche Technologies Private Limited our Registrar and Transfer Agent ("RTA") by visiting at <a href="http://www.nichetechpl.com">www.nichetechpl.com</a> on a temporary basis to ensure the receipt of the Notice.
2. For Members holding shares in physical mode, you may register your email address with the RTA by visiting at <a href="http://www.nichetechpl.com">www.nichetechpl.com</a> on a temporary basis to ensure the receipt of the Notice.
Members can join and participate in the EGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the EGM would be provided in the Notice of the EGM. Members participating through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.
The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its members to cast their votes on all resolutions as may be set forth in the Notice. Members have the option to cast their votes on any of the resolutions using the remote e-voting facility or e-voting during the EGM. Detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the EGM will be provided in the Notice of EGM.
The login credentials for casting the votes through e-Voting shall be made available to the members through various modes as may be provided in the Notice of EGM as well as through e-mail after successfully registering the email address(es).
The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the Circulars.
The Members may contact the Company's RTA at: Niche Technologies Private Limited 3A, Auckland Place, 7th Floor, Room No- 7A & 7B, Kolkata – 700 017 Email: <a href="mailto:nicetechpl@nicetechpl.com">nicetechpl@nicetechpl.com</a> Contact: +91 98306 59635
By order of the Board SMT Engineering Limited
Sd/- Mohd Shanawaz Sheikh (Company Secretary & Compliance Officer)
Date: 10.12.2025 Place: Indore